

विश्व हिंदी दिवस समारोह - 2022

11 जनवरी, 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), क्रय एवं भंडार निदेशालय (डीपीएस), निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय (डीसीएसईएम), भारी पानी बोर्ड (एचडब्ल्यूबी) तथा विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) की संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति के तत्वावधान में विश्व हिंदी दिवस समारोह 2022 का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया।

इस अवसर पर श्रीमती शैलजा प्रकासम, मुख्य प्रशासन अधिकारी, नि.से.सं.प्र.नि. एवं अध्यक्ष, संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके पश्चात मेजबान इकाई क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक डॉ. जी. पद्म कुमार जी ने बताया कि इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का हमें सौभाग्य देने के लिए मैं संयुक्त समन्वय समिति का शुक्रगुजार हूं।



इस अवसर पर श्री गुंटूर नागेश्वर राव, अध्यक्ष, एईआरबी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर शहर में आयोजित हुआ था। 10 जनवरी 2006 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था।

तब से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्वभर में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ाना है और जागरूकता फैलाना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को बहुत ही विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एईआरबी में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न हिंदी गतिविधियां आयोजित की जाती है और हिंदी के बढ़ावे के लिए सभी लोग प्रयासरत है। हिंदी का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना और इसे आने वाले समय की भाषा बनाना हमारा लक्ष्य है।

इस समारोह में एईआरबी के श्री धनेश परमार, सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा श्री वैभव घोलप, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ एवं सदस्य, राभाकास, एईआरबी भी उपस्थित रहे थे।

जयहिंद, जय हिंदी।